

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्य प्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्रमांक ५८५ /वि.यो.496 /नग्रानि/

भोपाल, दिनांक ३०/१/ 2018

### रीवा विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि रीवा विकास योजना में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध हैं—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा।
2. कलेक्टर, जिला रीवा।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम।

#### अनुसूची

क्र०	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	प्रस्तावित उपांतरण
1.	<b>अध्याय-2</b> सारणी 2—सा—14 आवासीय विकास हेतु प्रस्तावित घनत्व एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात टीप— बेसमेंट म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय होंगे।	<b>अध्याय-2</b> सारणी 2—सा—14 आवासीय विकास हेतु प्रस्तावित घनत्व एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात टीप— बेसमेंट म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय होंगे।
2.	<b>अध्याय-4</b> बिन्दु 4.1 प्रवृत्तशीलता बिन्दु 4.2 क्षेत्राधिकार 1. इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(1) के अंतर्गत गठित रीवा निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है वे म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।	<b>अध्याय-4</b> बिन्दु 4.1 प्रवृत्तशीलता बिन्दु 4.2 क्षेत्राधिकार 1. इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(1) के अंतर्गत गठित रीवा निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

3.	<p><b>अध्याय—4</b></p> <p><b>4.3 परिभाषायें</b></p> <p>अन्य परिभाषायें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार मान्य होगी।</p>	<p><b>अध्याय—4</b></p> <p><b>4.3 परिभाषायें</b></p> <p>अन्य परिभाषायें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होगी।</p>
4.	<p><b>अध्याय—4</b></p> <p><b>4.4.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उप विभाजन।</b></p> <p>7. म0प्र0 भूमि विकास नियम,1984 के परिशिष्ट—एम (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।</p>	<p><b>अध्याय—4</b></p> <p><b>4.4.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उप विभाजन।</b></p> <p>7. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम,2012 के परिशिष्ट—ज (नियम 99) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय निर्माण का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।</p>
5.	<p><b>अध्याय—4</b></p> <p><b>सारणी 4—सा—2</b></p> <p><b>4.4.1(1) आवासीय भूखण्ड विकास</b></p> <p><b>सारणी 4—सा—2 के नीचे की टीप:-</b></p> <p>2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ऐसे भूखण्डों का स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे।</p> <p>4. समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित पार्किंग व्यवस्था की गई हो तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में न की जावें।</p> <p>5. भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.50 से अधिक नहीं होनी चाहिये, एसी अवस्था में जब सम्पूर्ण भूतल आच्छादित पार्किंग के लिये उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊँचाई 15.00 मीटर तक सिमित होगी।</p> <p><b>ब.</b> निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होंगे जिसका</p>	<p><b>अध्याय—4</b></p> <p><b>सारणी 4—सा—2</b></p> <p><b>4.4.1(1) आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड सारणी 4—सा—2 के नीचे की टीप:-</b></p> <p>2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ऐसे भूखण्डों का स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार द्वारा अधिशासित होंगे।</p> <p>समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र एवं अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप होंगे।</p> <p>भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.50 से अधिक नहीं होनी चाहिये। 12.50 से ऊचे भवन हेतु प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के अनुसार होंगे।</p> <p>कर्मचारी आवास के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे।</p>

	<p>स्वीकृति प्राप्त करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जावें।</p> <p>स.एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्गमीटर होगा। जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र का होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी आवासीय इकाईयों में जिसमें कुकिंग बरांडा बाथरूम में शौचालय होना आवश्यक होगा।</p> <p>इ. 288 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिए।</p>	<p>एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 25 वर्गमीटर होगा। शेष प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे।</p> <p>288 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों में पार्किंग के प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे।</p>
6.	<p><b>अध्याय—4</b></p> <p><b>4.4.3 समूह आवास परियोजनायें निम्न नियमनों से अधिशासित होंगी।</b></p> <p>(अ) ऐसे प्रकार के विकास हेतु स्थल का न्यूनतम आकार 5000 वर्गमीटर होना चाहिये।</p> <p>(ब) यह सुनिश्चित किया जावे कि 5000 वर्गमीटर आकार स्वीकृत अभिन्यास का एक भाग होगा जिसमें अनौपचारिक वर्गों के प्रावधान के साथ नगर स्तरीय समन्वित परिभ्रमण तथा वृत्त खण्ड/उपवृत्त खण्ड हेतु आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिये।</p> <p>(स) भू—आच्छादन स्थल के क्षेत्र का 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।</p> <p>(द) भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये। ऐसी अवस्था में जब भू—तल पर आच्छादित पार्किंग के लिए उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊँचाई 15.00 मीटर होगी।</p> <p>(इ) ऐसे स्थल से लगी सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 24 मीटर से कम नहीं होगी।</p> <p>(फ) ऐसे विकास हेतु सीमान्त खुला क्षेत्र निम्नानुसार होगा— —अग्रभाग— न्यूनतम 6 मीटर</p>	<p><b>अध्याय—4</b></p> <p><b>4.4.3 समूह आवास</b></p> <p>मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 के प्रावधान लागू होंगे।</p>

<p><b>विराम स्थल :</b> सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी स्थल का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा 150 कुर्सियों के लिए, इनमें जो भी कम हो।</p> <p><b>आवश्यक क्षेत्र:</b> 2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जाये</p> <p><b>भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र :</b> भूखण्ड के आकार का अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा।</p> <p><b>सेट-बैक—</b> सामने — न्यूनतम 15 मीटर आजू/बाजू—न्यूनतम 4.5 मीटर / 4.5 मीटर पृष्ठ न्यूनतम 4.5 मीटर</p> <p><b>4.4.5(फ) होटल हेतु मापदण्ड</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भू—तल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र — 30 प्रतिशत</li> <li>2. अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात — 1.20</li> <li>3. अधिकतम उंचाई — 12.50 मीटर</li> <li>4. अन्य नियंत्रण</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>— फर्शी क्षेत्रानुपात 5 प्रतिशत होटल गतिविधियों से संबंधित उपयोग में लाया जाये।</li> <li>— तलघर का अधिकतम क्षेत्र भू तल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर होगा। इसका उपयोग वाहन विराम स्थल एवं सेवा के लिये ही किया जावें एवं इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नहीं की जायेगी।</li> <li>— वाहन विराम स्थल 4—सा—15 अनुसार होंगे।</li> </ul>	<p><b>4.4.5(फ) होटल हेतु मापदण्ड</b></p> <p>म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 सहपाठित नियम 57 इसके अनुरूप होंगे। कुल निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होकर गतिविधियों से सम्बंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकता है। वाहन विराम हेतु प्रांवधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होंगे।</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><b>अध्याय-4</b></p> <p><b>4.4.6 औद्योगिक विकास मानक</b></p> <p>(अ) अभिन्यास के मानक</p> <p>(ब) फ्लेटेड फेकिट्रियॉ</p> <p>ओद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार अनुशासित है—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भूखण्ड का क्षेत्र — अधिकतम 65 प्रतिशत</li> <li>2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र अधिकतम 25 प्रतिशत दुकानें एवं अन्य सेवा सुविधायें न्यूनतम 10 प्रतिशत</li> </ol>	<p><b>अध्याय-4</b></p> <p><b>4.4.6 (अ) औद्योगिक विकास मानक</b></p> <p>मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होगे एवं मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई नियम 38 (4) (ख) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगी।</p>
10.	<p><b>अध्याय-4</b></p> <p><b>4.4.7 सामाजिक अधोसंरचना</b></p> <p>सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड सारणी क्रमांक 4—सा—9 के समस्त प्रावधान</p>	<p><b>अध्याय-4</b></p> <p><b>4.4.7 सामाजिक अधोसंरचना</b></p> <p>अधोसंरचना के मानक सामुदायिक सारणी क्रमांक 4—सा—9 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप होंगे।</p>
11.	<p><b>4.5.5 कार एवं बसों के सड़कों पर पार्किंग हेतु मानक बस स्थानक का आकार वाहन विराम मानक सारणी—4—सा—15</b></p>	<p><b>4.5.5 कार एवं बसों के सड़कों पर पार्किंग हेतु मानक बस स्थानक का आकार वाहन विराम मानक (पार्किंग मानक) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होंगे।</b></p>
12.	<p><b>4.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन</b></p> <p>संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियॉ</p> <p>(अ) बीहर एवं बिछिया नदी के तटीय क्षेत्रों के दोनों ओर 50.00 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा। नदी के तटीय क्षेत्र में जलकीड़ा संबंधी विकास, आश्रम देवालय ओर घाट का विकास सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति परांत किया जा सकेगा।</p> <p>(ब) क्षेत्रीय जल निःसारण नालें, झिरिया नाला, धिरमा नाले के दोनों किनारे पर सफाई हेतु 3 मीटर चौड़ा मार्ग एवं उसके उपरांत 3 मीटर तक क्षेत्र में वृक्षारोपण स्वीकार्य होगा। अन्य निर्माण भूमि व्यपवर्तन निषिद्ध होगा।</p>	<p><b>4.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन</b></p> <p>(अ) शेष प्रावधान म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 (ख) के अनुरूप होंगे।</p>

<p>13. <b>4.8.2</b> अन्य उपयोग गतिविधियों पर नियमन (ग) धर्मशाला, मंगल भवन एवं रात्रि विश्राम गृह ग के बाद (घ) स्थापित किया जावें ।</p>	<p><b>4.8.2</b> अन्य उपयोग गतिविधियों के नियम (ग) धर्मशाला एवं मंगल भवन एवं रात्रि विश्राम गृह के बाद(घ) स्थापित किया जावें । (घ) विवाह पार्क (मेरिजगार्डन) म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप होगे।</p>
<p>14. <b>4.9</b> उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग गतिविधियों — वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा वाणिज्यिक केन्द्र एवं आवासीय तथा औद्योगिक परिक्षेत्र में होटल स्वीकार्य होंगे। तालाब एवं जल तटीय संरक्षित क्षेत्र में निम्न धनत्व के आवासीय क्षेत्र में होटल निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में संबंधित परिक्षेत्र में अधिकतम स्वीकार्य आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं वाहन विराम स्थल निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा।</p> <p><b>कंडिका 4.9.1</b> प्रशासनिक / संस्थायें (पी.एस.-1 एवं 2)</p>	<p><b>4.9</b> उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग गतिविधियों — वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा वाणिज्यिक केन्द्र एवं आवासीय तथा औद्योगिक परिक्षेत्र में होटल, माल एवं मल्टीपलेक्स स्वीकार्य होंगे। तालाब एवं जल तटीय संरक्षित क्षेत्र में निम्न धनत्व के आवासीय क्षेत्र में होटल निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में संबंधित परिक्षेत्र में अधिकतम स्वीकार्य आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं वाहन विराम स्थल नियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा।</p> <p><b>कंडिका 4.9.1</b> प्रशासनिक / संस्थायें (पी.एस.-1 एवं 2)</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** एवं सम्मेलन केन्द्र (कन्वेशन सेंटर) को स्थापित किया जाना है।</p>

4—सा—17 के नीचे की टीपः—

टीपः— कृषि उपयोग के अन्तर्गत म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम, 1984 में परिभाषित भू—उपयोग तथा कब्रिस्तान, शमाशान, घाट, जल—मल उपचार संयंत्र, ट्रेचिंग ग्राउण्ड, ईट भट्टा, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण स्टोर केशर, वेयर हाउस व गोदाम, गैस गोदाम, सूचना प्रौद्योगिकी\*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग\*\* , कृषि पर्यटन सुविधा\*\*\* एवं समस्त प्रकार के भण्डारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

4—सा—17 के नीचे की टीपः—

कृषि उपयोग के अन्तर्गत म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 में परिभाषित भू—उपयोग तथा कब्रिस्तान, शमाशान, घाट, जल—मल उपचार संयंत्र, ट्रेचिंग ग्राउण्ड, ईट भट्टा, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण, स्टोर केशर, वेयर हाउस व गोदाम, गैस गोदाम, सूचना प्रौद्योगिकी\*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग\*\* , कृषि पर्यटन सुविधा\*\*\* एवं समस्त प्रकार के भण्डारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

	ए-३ कृषि परिक्षेत्र (ए-२ सहित )	ए-३ कृषि परिक्षेत्र (ए-२ सहित)
<b>व्याख्या—</b>		
<p>i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।</p> <p>ii. **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।</p> <p>iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार ।</p> <p>टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।</p>		
15.	<p><b>4.9.2 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग /उपयोग गतिविधियाँ स्थानीय दुकानें</b></p> <p>फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान वाणिज्यिक कार्यालय म0प्र0 भूमि विकास नियम, 1984 के परिशिष्ट में उल्लेखित उद्योग, उपचार प्रयोगशाला क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक, उपहार गृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर, नर्सिंग होम्स एवं अतिथि गृह ।</p>	<p><b>4.9.2 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग /उपयोग गतिविधियाँ स्थानीय दुकानें</b></p> <p>फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान वाणिज्यिक कार्यालय म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के परिशिष्ट में उल्लेखित उद्योग, उपचार प्रयोगशाला क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक, उपहार गृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर, नर्सिंग होम्स एवं अतिथि गृह ।</p>
16.	<p><b>4.10 बन आवास</b></p> <p>मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधान अनुसार यह गतिविधियाँ नियंत्रित होंगी ।</p>	<p><b>4.10 फार्म हाउस की अनुज्ञा</b></p> <p>फार्म हाउस के मानक मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार मान्य होंगे। नियम 17 के अनुसार गतिविधियाँ नियंत्रित होंगी ।</p>
17.	<p><b>4.11 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया</b></p> <p>विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगा ।</p> <p>1. म0प्र0 भूमि विकास नियम, 1984 के अन्तर्गत नियम-17 के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये ।</p> <p>11. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करनो होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा</p>	<p><b>4.11 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया</b></p> <p>विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगा ।</p> <p>1. म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-14 (4) के अन्तर्गत 29 (1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होंगे ।</p> <p>11. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष</p>

	<p>शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।</p> <p>13. म0प्र० भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें ।</p> <p>15. म0प्र० (कालोनाईजर) का रजिस्ट्रीकरण (निर्बधन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं 1999 के अनुरूप जानकारी ।</p> <p><b>टीप:-</b></p> <p>2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी म0प्र० भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिये ।</p>	<p>में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।</p> <p>3. म0प्र० भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49 (4) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें ।</p> <p>15. म0प्र० नगर पालिका (कालोनाईजर) का रजिस्ट्रीकरण (निर्बधन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं म0प्र० ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास ) नियम 2014 के अनुसार जानकारी ।</p> <p><b>टीप:-</b></p> <p>विलोपित</p>
18.	<p><b>4.12 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया</b></p> <p>म0प्र० भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>परिशिष्ट—1 (द)के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र ।</li> <li>प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा कमांक दर्शित हों ।</li> <li>अद्यतन खसरा पंचसाला एवं खसरा खतौनी ।</li> <li>आवेदन केवल भू-खामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा ।</li> <li>जब आवश्यक ही भूमि का पंजीयन प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो ।</li> </ol>	<p><b>4.12 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया</b></p> <p>म0प्र० भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49 (4) के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी :— परिशिष्ट—(छ) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा नियम 16 के अनुरूप दी जाने वाली जानकारी ।</p>
19.	<p><b>4.13 मल्टीप्लेक्स</b></p> <p>मल्टीप्लेक्स हेतु म0प्र० भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान लागू होंगे ।</p>	<p><b>4.13 मल्टीप्लेक्स एवं शॉपिंग मॉल</b></p> <p>मल्टीप्लेक्स एवं शॉपिंग मॉल हेतु म0प्र० भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे ।</p>

20.	<b>अध्याय-5</b> भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम, 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है।	<b>अध्याय-5</b> भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है।
21.	<b>5.2 योजना क्रियान्वयन नीति</b> <b>10.</b> ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहाँ कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो नियंत्रित होगा।	<b>5.2 योजना क्रियान्वयन नीति</b> <b>10.</b> ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहाँ कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो नियंत्रित होगा।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यारे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्य प्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

### मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 09 फरवरी, 2018

क्रमांक -252-मप्रविनिआ-2018. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1525-मप्रविनिआ-2014 दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा इस अधिसूचना के म.प्र. शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है।

2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा।
3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श-दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली) विनियम, 2004” एवं समय-समय पर उसमें किये गये संशोधन द्वारा शासित होगी।
4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।